

November 16, 2023

Ref.: ETTL/SEC./ BSE / 28 /23-24

The BSE Limited Corporate Relationship Department, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.

Sub.: Copy of Advertisement published in Newspaper

Dear Sir,

In compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of advertisement published in 'Financial Express' and 'Jansatta' on November 16, 2023 for unaudited financial results of the Company for the quarter ended September 30, 2023.

This is for your information and records.

Regards, for ETT Limited

Sanjana Rani Compliance Officer

Encl.: A/a

FINANCIAL EXPRESS



TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Registered Address:- Tower A, 11th Floor, Peninsula Business Parl Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 Branch Address: Tata Capital Financial Services Limited 7th Floor | Videoco Tower Block E1IJhandewalan Extension New Delhi -110 055 ALE NUTICE FUR SALE OF MOVABLE PROPERTY

(Under Rule 6(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (1) of the Security Interest

(Enforcement) Rules, 2002. 1. LOAN ACCOUNT NO. TCFCE0310000010295890.: CORONATION INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower/ Co- Borrower that the below described movable property hypothecation to Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor/TCFSL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Tata Capital Financia Services Ltd. (Secured Creditor), pursuant to notice under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) (No. 54 of 2002). The following movable properties will be sold on 4th December 2023on "As is where is basis" & "As is what is and whatever there is & without recourse basis".

Whereas the sale of secured asset is to be made to recover the secured debt and whereas there was a due of a sum of Rs.1,92,13,488/- (Rupees One Crore Ninety-Two Lacs Thirteen Thousand Four Hundred Eighty Eight Only) vide Loan Account TCFCE0310000010295890 as on 23.01.2022 demanded vide Notice U/s. 13(2) dated 31rd January 2022 from Borrower & Co-Borrowers/Guarantors i.e. 1. CORONATION INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED THROUGH IT'S DIRECTOR SH. RANJIT SINGH ATWALR/O E-0, THE MIRA CORPORATE SUITE,1&2 ISHWAR NAGAR SHRI NIWAS PURINEW DELHI-110065 2. M/S GS ATWAL & COMPANY (ASANSOL) (CO-BORROWER) THROUGH ITS PARTNERSH. RANJIT SINGH ATWALR/O E-0. THE MIRA CORPORATE SUITE, 1&2 ISHWAR NAGAR SHRI NIWAS PURINEW DELHI-110065 3. SH. RANJIT SINGH ATWAL (DIRECTOR)S/O SH. SURINDER SINGH ATWAL R/O H.NO.-A-18 NITI BAGHNEW DELHI-110049 4. Sh. Surinder Singh Atwal (Guarantor)S/O Sh. Gurbachan Singh Atwalr/O H.NO.-A-18 NITI BAGHNEW DELHI-1100495. SH. KARANVEER SINGH ATWAL (DIRECTOR)S/O SH. SURINDER SINGH ATWAL R/O H.NO.-A-18 NITI BAGHNEW DELHI-110049

Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said propert shall be sold by E- Auction at 2.00 P.M. on the said on 4th December 2023 on by TCFSL, having its branch office at 7th Floor | Videocon Tower|Block E 1|Jhandewalan Extension New Delhi -110 055. The sealed E- Auction for the purchase of the property along with EMD Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD till 5.00 P.M. on the said 1st December 2023.

Description of Secured Asset	Constructive/ Physical	(Rs)	EMD (Rs)			
Asset Category: EXCAVATOR Manufacturer: TATA HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY COM PANY PVT LTD - CEQ Asset Model: ZAXIS 650 H Engine Number: 0ACG 000268 Chassis Number: 0ACG 000268	PHYSICAL	Rs. 54,67,500 / (Rupees Fifty- Four Lacs Sixty Seven Thousand Five Hundred only)	Lacs Forty Six Thousand Seven Hundred Fifty			
The description of the property that will be put up for sale is in the Schedule. The sale will also be stopped if, amount due						

as aforesaid, interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the 'Authorized Officer' or proof is given t his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid. At the sale, the public generally invited to submit their tender personally. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the rules/conditions prescribed under the SARFAESI Act, 2002. The E-auction will take place through portal Auction agency Auctomate - https://auctomate.com , Auction ID -Community: ET-CE >Rajasthan->Tata Capital Ltd , Mahindra -edlig, www.edlig.comAuction ID - Community: ET-CE >Rajasthan->Tata Capital Ltd on 4th December 2023 between 2.00 PM to 3.00 PM with unlimited extension of 1 minutes each. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD." payable at Delhi Inspection of the property may be done on 4th December 2023 between 11.00 AM to 5.00 PM.

Note: The intending bidders may contact the Authorized Officer Mr. Deepak Kaushik., Email i Deepak.Kaushik@tatacapital.com and Mobile No. +919780037197. For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in secured creditor's website, i.e

or contact Authorized Officer or Service Provider-IVI/s. 4Closure

Place: - Delhi Date- 16.11.2023 Su/- Authorized Office Tata Capital Financial Services Ltd

Vasant Vihar New Delhi-110057. NOTICE (E - AUCTION) FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

NDER RULE 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES. 2002 NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY MORTGAGED WITH HERO HOUSING FINANCE LIMITED(SECURED CREDITOR) UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Hero Housing Finance Limited (secured creditor), will be sold on 06-Dec.-2023 (E - Auction Date) on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrowers, Co-Borrowers or Guarantors. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. The EMD should be made through Demand Draft/RTGS/NEFT for participating in the Public E-Auction along with the Bid Form which shall be submitted to the Authorised Officer of the Hero Housing Finance Ltd. On or before 05-Dec.-2023 till 5 PM at Branch Office: 27, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar New Delhi-110057.

Loan Account No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Legal Hein/Legal Rep	Date of Demand Notice/ Amount as on date	Type of Possession (Under Constructive/ Physical)	Reserve Price	Earnest Money
HHFNSPHOU 19000005075	Mr. Ghanshyam Chaturvedi, Mrs. Suman	19/09/2022 Rs. 21,29,645/- as on 09/11/2023	Physical Possession	Rs. 11,00,000/-	Rs. 1,10,000/-

Back Extension, Part-II, Uttam Nagar, New Delhi-110059, along with one bike parking on Ground Floor with common amenities written in Title Document. Plot No-51-A, Bounded by: North: Plot No-1 East: 25 Feet Wide Board South: Plot No.51-B. West: Gali &feet

	Anshul Thakur, Kimika Chauhan	27/06/2022 Rs. 18,56,527/- as on 09/11/2023	Physical Possession	Rs. 10,50,000/-	Rs. 1,05,000/-
Description of	Property:- All The Pier	ce And Parcel Of The Bu	ild UP Flat On F	irst Floor On	Rear /han

Side Upto Extent Of Ceiling Level Without Roof/terrace Right With Undivided Indivisible & Impartible Proportionate Land Rights With Its All Free Hold Rights Titles And Interests Of The Said Property, Part Of Property Bearing New No. 180/1-B. Old No. 206, Out Of Khasara No. 1601/624 & 1410/1068/51 Khatoni No. 590, Khewat No. 582, Village- Chandrawali Alias Shahdara In The Abadi Of Gali No. 9 8 10 Bhola Nath Nagar, Illaga- Shahdara, Delhi 110032. Having Area 40 Sq Yds I.e 33.45 Sq Mtrs Along With Other Amenities As Mentioned in The Sale Deed. Boundary Of The Property East: Road/Gali No. 9, West Gali No. 10, North:- Property No. 205 of others, South:- Property of Others HHEDELI AP Kanay Kahol 21/12/2022 Physical Rs Rs

19000001340	Priyamvada Tripathi	Rs. 1,05,08,306/- as on 09/11/2023	Possession	68,40,000/- (Jointly for both Item no. 1 & 2)	6,84,000
		1: Built-up Flat No. U 20:			

North: Rasta, East: Others Property, South: Others Property, West: Others Property

Item No 2: Built-up Flat No. U103 On Upper Ground Floor Measuring 120 Sq. Yds Consisting Of Three Bedroom, Two Bathrooms, One Drawing Room, One Kitchen, And One Car Parking On The Lowe Ground Floor Erected On Plot Of Land Total Admeasuring 500 Sq. Yds Bearing Khasra No 1053-1054 (0-10), Chaitanya Apartment, Situated in The Extended Lai Dora Abadi Of Village Kapashera, Tehsii Vasant Vihar, New Delhi - 110037 along with Undivided , indivisible and impartible ownership rights in the land beneath the same, and with all right of possession, privileges, easements and appurtenances, with all fittings, fixtures, connections, structure, lift standing thereon, with all

	n. Bounded By: Nor	sages, staircase and of th: Rasta East: Others F			
HHFNSPHOU 22000020049	Vivek Kumar, Jyoti Devi	21/11/2022 Rs. 8,99,414/- as on 10/11/2023	Physical Possession	Rs. 5,00,000/-	Rs. 50,000/-

Description of Property:- Free Hold DDA Built UP Flat Bearing No. 120 On Third Floor Area Measuring 18.00 Sq Mtrs Under Janta Category, Pocket -1, Sector- A-5, Situated In The Layout Plan Of Narela Residential Scheme, Narela, Delhi 110040, Bounded By: North: NW - Open, East: NE - 119, South:

SE Entry, West: SW-Staircase

1)The prescribed Tender/ Bid Form and the terms and conditions of sale will be available with the Branch Office: 27, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057. between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on any working day. (2) The immovable property shall not be sold below the Reserve Price. (3) Bid increment amount shall be Rs.10,000- (Rupees Ten Thousand Only). (4) All the bids, tenders submitted for the purchase of the above property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft/RTGS/NEFT favouring the "HERO HOUSING FINANCE LTD." The EMD amount will be return to the unsuccessful bidders after conclusion of the E-auction. (5) The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be the discretion of the Authorised Officer to decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. (6) The prospective bidders can inspect the property on 29-Nov.-2023 between 11.00 A.M and 2.00 P.M with prior appointment. (7) The person declared as a successful bidder shall, immediately after the declaration, deposit 25% of the amount of purchase money/ highest bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24 Hrs. and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/sale by private treaty. (8) In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchaser money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. (9) In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/ sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by Hero Housing Finance Ltd. and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. (10) The above sale shall be subject to the final approval of Hero Housing Finance Ltd. (11) Details of any encumbrances, known to the HERO HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: Not Known. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: Not Known. (12) Interested parties are requested to verify/confirm the statutory and other dues like Sales/Property tax. Electricity dues, and society dues, from the respective departments / offices. The Company does not undertake any responsibility of payment of any dues on the property. 13) TDS of 1%, if any, shall be payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by the highest bidder in the PAN of the company and the copy of the challan shall be submitted to the company. (14) Sale is strictly subject to the terms and conditions incorporated in this advertisement and in to the prescribed tender form. (15) The successful bidder. purchaser shall bear all stamp duty, registration fees, and incidental expenses for getting sale certificate registered as applicable as per law. (16) The Authorised Officer has the absolute right to accept or reject the bid or adjourn / postpone / cancel the tender without assigning any reason thereof and also to modify any terms and conditions of this sale without any prior notice. (17) Interested bidders may contact Mr. Raj Mishra at Mob. No. 9971808985 during office hours (10.00AM to 6.00 PM) or mail on assetdisposal@herohfl.com by mentioning the account no. of property/borrower. (18)

ID:support@auctiontiger.net

The above mentioned Borrower/Mortgagor/Guarantors are hereby noticed to pay the sum as mentioned in Demand Notice under section 13(2) with as on date interest and expenses before the date of Auction failing which the property shall be auctioned and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost from you.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in

Mr. Sunil Yadav, Mob- 9818840495 DATE : 16-Nov.-2023 PLACE: DELHI/NCR Email: assetdisposal@herohfl.com

HERO HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Phone: 011 49267000, Toll Free Number: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com

Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148 Contact Address: Building No. 27, 2nd Floor, Community Center, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi- 110057.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Hero Housing Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described

herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Hero Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect

Loan Account No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Date of Demand Notice/Amount as per Demand Notice	s (Constructive/
HHFDELHOU 19000001242		21/08/2023, Rs. 20,45,3 as on date 18/08/202	
306, In Block- The Area Of V 50 SQ. YDS. I	of Secured Assets/Immovabl B., Gali No.3, Entire Third Floo illage – Bharola, Colony Know E. 41.805 SQ. MTRS. Bound said Property, South: Road, We	r With Roof Rights, Out Of n As Majlis Park, Delhi – 11 ed by: North: Property No.	Khasra No. 20, Situated In 10033. AREA MEASURING
HHFDELHOU	Dhannajay Kumar Singh, Ma	anoranjan 21/08/2023, Rs	3. 13,39,453/- 15/11/2023

Kumar Singh, Raju Kumar as on date 18/08/2023 (Symbolic) Description of Secured Assets/Immovable Properties: First Floor Back Side Without Roof Rights Out Of Property No. 45, Gali No. 5, Area 33,444 Sq. Mtrs (40 Sq. Yds) Out Of Total 100 Sq. Yds. Out Of Khasra No. 758/99 And 759/99 Situated In The Revenue Estate Of Village-Nasirpur, D-2 Block, Mahavir Enclave, New Delhi-110045 with one bike parking at stilt floor. Bounded By: North: Other's Property, East: 18 Ft wide road, South: Other's Property, West: 8 Ft wide Gali HHFDELHOU AKHILESH SINGH, SANGITA DEVI 21/08/2023, Rs. 22.02,738/-14/11/2023

19000005041 as on date 18/08/2023 (Symbolic) Description of Secured Assets/Immovable Properties: Entire First Floor (without roof rights) having area measuring 50 sq. Yds. Or say 41.8 sq. Mtrs. (size 15' x 30'), which is part of freehold property bearing municipal bearing No.1823, Gali No.136 (1823/136), Portion of Old Plot No.84, Out of Khasra No.257/6, situated in the area of Village- Chowkri Mubarakabad, Delhi State, Abad Known As Shanti Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035. Bounded By: North: Other's Property, East: Road, South: Other's Property, West: Remaining part of property/plot

& HHFGAZIPL21000014268 Description of Secured Assets/Immovable Properties: Flat No. Ff-4, First Floor, Back Side Rhs, Without Roof Rights, L.i.g, Built On Plot No. A-43, Khasra No. 213, Having Area Measuring 350 Sq. Ft. I.e. 32.515 Sq. Mtrs., Rail Vihar, Village- Sadullabad, Pargana And Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102, Plot Bounded By: East Plot No. A - 42, West Flat No. FF-3 North: Others Flat, South: Common Passage/ Flat No. FF 1

SUNITA GUPTA & HHFNSPIPL22000019548 as on date 21/08/2023 Description of Secured Assets/Immovable Properties: Flat No. UGF - 02, Upper Ground Floor. Front LHS, Without Roof Built On Plot No- A-87, Khasra No. 353, Area Measuring 440 Sq. Ft. I.e. 40.876 Sq Mtrs Situated In Rail Vihar Sehkari Avas Samiti Limited, Village Sadullabad, Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh -201102 consisting of two bedrooms, one drawing room, one kitchen and two toilet bathrooms. Bounded by: North: Rear Unit/ Other's property, East: RHF

HHFNOIIPL22000024141	DEVI	as on date 22/08/2023	(Symbolic)
Description of Secured As RHS with roof right having co- bedroom, one drawing/dining No-261, Rail Vihar Sehkari Se Uttar Pradesh- 201102, Bour West; Plot No. C-19	vered area measuring 25 room, one tollet/bathroo amiti Ltd, Village-Sadulli	19 sq. ft. i. e. 27.77 sq. mbrs cons om, built on Plot No.c-20, Block abad, Pargana And Tehsil- Loni	sisting of one — C, Khasra , Ghaziabad,
HHFDELHOU19000002754	SACHIN KHANNA,	22/08/2023, Rs. 23,17,604/-	14/11/2023

	SUBHASH RANI	as on date 21/08/2023	(Symbolic
Description of Secured As	sets/Immovable Prop	erties: Second Floor, Rear	Side/ Easter
Portion, Without Roof Rights,	Built On Plot No B-62, H	Chasra No. 1310, Area Measur	ring 83.61 Sc
Mtrs Situated In Hayat Encla	ve, Village Loni, Pargan	a And Tehsil Loni, District Gha	aziabad, Utta
Pradesh- 201102. Plot No. B-	62 Bounded By: North: C	Ither's Property, East: Vacant F	Not, South: 3
ftwide road. West: Vacant Plo	(25)		

HHFLAXHOU VINOD KUMAR, NEHA KASHYAP. 22/08/2023, Rs. 10,98,264/- 14/11/2023 SATYAM SON OF VINOD KUMAR as on date 21/08/2023 escription of Secured Assets/Immovable Properties: Flat No. FF-03, LIG, First Floor, Without Roof Rights, Rear RHS, Consisting Of One Drawing/ Dining Room, One Bedroom, One Toilet, & One Kitchen Having Covered Area Measuring 308 Sq. Ft. I.e. 28.61 Sq. Mtrs Situated On Plot No-F 101, Khasra No. 180/3, & 181, Block - F, Slf Ved Vihar, Village- Sadullabad, Pargana And Tehsi Loni, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102. Bounded By: North: Other's Property, East: Plot No. F-102, South: Front Unit FF-2/9 mtr wide road, West: Unit No. FF-4/ Plot No. F-100

HIFNSPHOU RENU BALA, JITENDER GULATI, 25/08/2023, Rs. 13,70,778/- 14/11/2023 **GULSHAN GULATI** as on date 22/08/2023 (Symbolic) escription of Secured Assets/Immovable Properties: Entire built-up third floor with roof rights of built up property bearing No.WZ-6O1, Area measuring 37.5 sq.yds, out of khasra no. 359 and 360, situated in the area of Village Saleempur Mazra, Madipur & Delhi State, Delhi Now Colony Known

20000010735 HAZARI LAL as on date 22/08/2023 (Symbolic) escription of Secured Assets/Immovable Properties: Built-up Third Floor (Third From Rear RHS or South-west Direction) with roof/terrace rights pvt. no.308 in area measuring 40 sq.yds. of portion of abovesaid property bearing No.3, 4 & 5, Block-B, Out Of Khasra No.17/13, with common rights to use entrance/gate, stair case, passage, lift and all other common facilities alongwith one twowheeler parking space on ground floor, situated in the area of Village-Matiala and the colony known as Nanhey Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059 with the proportionate freehold rights of the land under the said property. Bounded by: North: Passage/portion Of The Said Property, East: Pvt. Floor No. 306, South: Other's Property, West: Pvt. Floor No. 309

HHFNSPHOU Yogesh Son Of Alal Kumar Sharma, 21/08/2023, Rs. 25.42,876/- 15/11/2023 20000010589 Manish Sharma, Sarvesh Sharma as on date 18/08/2023

escription of Secured Assets/Immovable Properties: PVT NO, 104, First Floor Without Roof Rights, Towards Back Side Lhs Of Built Up Property Bearing Plot No. 129 & 130, Admeasuring 50 Sq. Yds. I.e. 41.81 Sq. Mtrs. Out Of Khasra No. 21/18/1, Village-Razapur. Khurd, Block - S, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 with common one small hatchback car parking space at Front side unit then road 20 ft, West: Plot No. 127 and 128

escription of Secured Assets/Immovable Properties: Built Up Property Bearing No.2, Area Measuring 33.3 Sq Yards, (i.e. 27.86 Sq Mtrs. G+1) Out Of Khasra No.9/23 And 9/24, Situated In The Revenue Estate Of Village Hastal, Delhi State Delhi, Colony Known As Vikas Nagar, Gali No. 12, In Block-s, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Bounded By: North: Property Of Malka, East: Others Property, South: Property Of Shoobran, West: Gali 15 Ft.

Date: - 16-11-2023 Sd/- Authorised Officer, Place: - Delhi/NCR For Hero Housing Finance Limited

Form No. INC-26

General Notice pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION

the matter of Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

Petitioner

In the matter of BIJWASAN FARMS PRIVATE

LIMITED CIN No.: U74899DL1994PTC061589 a Company Registered under the Companies Act; 2013 having its Registered Office: A-11, Kailash Colony, New Delhi- 110048

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Regional Director, Northern Region, New Delhi under section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on Wednesday, 27" September, 2023 at its Registered Office to enable the company to change its Registered office from National Capital Territory of Delhi to State of Haryana. Any person whose interest is likely to be affected by

the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 WING, 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned above.

For Bijwasan Farms Private Limited Date: 15.11.2023 Director Place: New Delhi

Form No. INC-26

General Notice pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION

In the matter of Companies Act. 2013. Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of ROSEWOOD AGRO PRIVATE LIMITED

Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Regional Director, Northern Region, New Delhi under section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on Wednesday, 27° September, 2023 at its Registered Office to enable the company to change its Registered office from National Capital Territory of Delhi to State of Harvana.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 WING. 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned above.

For Rosewood Agro Private Limited Date: 15.11.2023 Place: New Delhi

E Auction Sale Notice under IBC, 2016 Sale Notice under IBC, 2016 of

M/S SUMERU PROCESSORS PVT. LTD. (IN LIQUIDATION) CIN: U51909DL1986PTC024201

Near Peera Gari Metro Station New Delhi-110087

New Delhi Principle Bench. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform https://right2vote.in/eauction/

Description	of E- Auction	(in INR)	Amount	Value
P & M Assets (Equipments)	27.11.2023 2:00 to 5:00 PM	2,20,000.00*	22,000.00	10,000.00

The Bank details are as follows: Name of the Bank: DCB Bank Limited, Branch: Karol Bagh, New Delhi, Account No.: 31121300000499, IFSC Code: DCBL0000311. Last Date of Inspection: 20.11.2023 till 5.00 P.M. with KYC document & prior intimation to

the Liquidator. EOI Submission last date: 23.11.2023 till 5.00 P.M. Terms & Conditions of the proposed auction are as under:

BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider M/s Right2Vote https://right2vote.in/eauction/

the website of https://right2vote.in/eauction/ 3. The details of the Stocks/ assets identified to be transferred along with the company are

also provided in the above E-Auction Process Document. The Liquidator has absolute right to accept or reject any or all bids or

adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E-Auction at any stage without assigning any reason thereof The Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

and Regulations made thereunder. Rajiv Malik, Liquidator Date: 15/11/2023

"FORM NO INC -26" (incorporation) Rules 2014 BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR NORTHERN

REGION, NEW DELHI IN THE MATTER OF SUB-SECTION 4 OF SECTION 13 OF THECOMPANIES ACT, 2013 AND CLAUSE (a) OF SUB-RULE (5) OF RULE 30 OF COMPANIES INCORPORATION RULES, 2014 IN THE MATTER OF

RANDHAWA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED (CIN: U45200DL2010PTC205115) HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT B-28, PUSHPANJALI FARMS, BIJWASAN NEW DELHI 110061. .. PETITIONER

NOTICE Notice is hereby given to the General Public that

the Company proposes to make application to the Central Government (Regional Director Northern Region) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking the confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on October 10, 2023 to enable the Compan to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State o Harvana" my person whose interest is likely to be affecte

by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to The Regiona Director, Northern Region at the address, B-2 Wing, 2nd Floor, Parvavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days f the publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office address mentioned below: B-28, PUSHPANJALI FARMS

BIJWASAN, NEW DELHI-110061 For and on behalf of RANDHAWA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

Date: 16.11.2023 SHON RANDHAWA Director DIN : 01667101 Place: New Delhi Add: E-21, Pushpanjali Farms Bijwasan, New Delhi-110061

CIN No.: U74899DL1994PTC061592 a Company Registered under the Companies Act, 2013 having its Registered Office: A-11, Kailash Colony, New Delhi- 110048

Director

Regd. Off: G-2, Jeevan Apartments 16A, Jamia Nagar New Delhi- 110065

Sale of P & M Assets (equipments) in name of M/s Sumery Processors Pvt. Ltd. (In Liquidation) by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal,

Description	Date and Time	Reserve Price	EMD	Bid Incremental
	of E- Auction	(in INR)	Amount	Value
P & M Assets (Equipments)	27.11.2023 2:00 to 5:00 PM	2,20,000.00*	22,000.00	10,000.00

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS". "WHATEVER IS.

Bids shall be submitted to Liquidator online in the format prescribed. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from

IBBI Regn.: IBBI/IPA-002/IP-N00391/2018-2019/12115 Email: iprmalik2009@gmail.com | Mob: 9810234731 Place: New Delhi

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of associations or individuals recommend that readers with advertisers or otherwise

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify

transactions with companies, advertising in its newspapers or Publications. We therefore make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements acting on an advertisement in any manner whatsoever.

बाग, नई दिल्ली शाखा कोड–51521 द्वारा अधिकृत अधिकारी श्री नरेश कुमार **नीतृ सिंह रावत** निवासी मकान नं० ३५१, एन ब्लॉक, सेक्टर २३, संजय नगर, गाजियाबाद–२०१००२

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एस.ए.आर. शाखा– दिल्ली 18/4, चतुर्थ तल, आर्य समाज रोड, करोल

न्यायालय श्रीमान कॉमरियिल न्यायालय द्वित्तीय गौतमबुद्धनगर

उत्तर प्रदेश। हाल निवासी फ्लैट नं० बी–1106, रैड एप्पल रैजीडैंसी खसरा संख्या 998, नूर नग राजनगर एक्स्टेंशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। 2. मैसर्स आईडिया बिल्डर्स प्रा० लि० सी–10, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।प्रतिवादीगण

हरगाह वादी ने आपके नाम एक नालिश बाबत वसुलयाबी व स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप् करन हेत् याजित किया है। लिहाजा आपको हक्म होता है कि बतारीख 16 माह 01 सन 2024 बवक्त 10 बजे दिन के असलातन या मार्फत वकील के जो मुकदमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कूल उमुरात अहम मुतालिका मुकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवा ऐसे सवालात दें सके. हाजिर हो और जवाबदेही दावा की करे. और आपका लाजिम है कि उसी रोज अप जुमला दस्तावेज पेश करें, जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही के इस्तदमाते करना चाहते हो। आपको इतिल्ला दी जाती है कि अगर बरोज मजकर आप हाजिर न होंगे तो मकदमा बगैर हाजिर

आप मसमूल और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 26 माह 10 सन् 2023 ई० जारी किय



Date: 16/11/2023

आदेशनुसा म्ंसरिम / प्रशासनिक अधिकारी कमर्शियल न्यायालय द्वित्तीय गौतमबुद्धनगर

INVITATION FOR PROPOSAL TO TAKE OVER THE ASSIGNMENT OF NOT READILY REALIZABLE ASSETS INBRA) LINDER THE INSOLVENCY AND BANKBUPTCY 2016 READ WITH REGULACTION 37A IF THE

IBBI (LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2016) TYSON RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) Registered Office: D.9, 1st Floor Sec-8, Dwarka New Delhi - 110077.

Liquidator's Office: LG-B-269, Chhatarpur Enclave, Phase-2, New Delhi-110074 Email ID: cirptyson2020@gmail.com; Contact Number:8800794355

Affidavit and Undertaking, Declaration, etc. by the Prospective Assignee		
Last Da	ate for inspection of the Documents	05.12.2023
Last Date For Submission of EMD		07.12.2023
	uidator of Tyson Retail Services Private Limited hereb the assignment of Not Readily Realizable Assets (NRR	
SI No.	Description of Assets to be assigned	Refundable EMD to be Deposited
K.	Assignment of unrealized recoverable from debtors	Rs.50000/-
7	Assignment of Order of Hon'ble NCLT under Section	Re 1 20 0000

66 and 67 of I B Code, 2016 for reversal of amount of Rs.16946533/-The above assignment would be done by the undersigned on "AS IS WHERE IS AS WHAT IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOUSE BASIS".

Process) Regulations 2016 and the provisions of detailed Process Information Document, Last date for eceipt of Proposal is 01.12 2023 by 5:00 P.M. In case, no Proposal is received by 01.12.2023 by 5:00 P.M. the Auction will be cancelled. Interested participants can inspect the available documents by sending an . "mail to cirptyson2020@gmail.com with the Subject as "interested in NRRA of Tyson The Liquidator shall advise further process, terms, and conditions etc. on review of offers received in

The assignment shall be subject to provisions of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation

Rajiv Bajaj Liquidator of M/s Tyson Retail Services Private Limited Regn. No. IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

FORM B

[Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy

Board of India (Liquidation Process) Regulations, 20161 FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

Date of Incorporation of Corporate Debtor 21st June, 2002 Authority under which Corporate Debtor Registrar of Companies, Delhi is Incorporated/Registered Corporate Identity No. / Limited Liability U45201DL2002PTC115916 Identification No. of Corporate Debtor

Address of the registered office & principal Registered Office: A-44, Ground Floor, office (if any) of Corporate Debtor Shakarpur, East Delhi, New Delhi-110092 Date of closure of insolvency 10/11/2023 Resolution Process

Name & Registration Number of Insolvency Gautam Singhal Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P01437/2018-19/12240 Professional acting as Liquidator Address: C-35, Ground Floor, Vivek Vihar, Phase-1. Address and Email of the liquidator New Delhi- 110095, Email: gautam@klfindia.com as registered with the Board Immaculate Resolution Professionals Private Limited. Address and e-mail to be used for

1. Last date for submission of Claims 14/12/2023 Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Bench-II, New Delhi has ordered commencement of liquidation of the MSX Mall Private Limited on 10/11/2023 (order received on

www.msxmall.com

The stakeholders of M/s MSX Mall Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. Gautam Singhal

Place: New Delhi

CIN No. U74999DL1995PLC064132 Regd. Office: 1407, 14th Floor, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi 110019.

RELIGARE SME LOANS

NOTICE Corporate Office: Max House, 7th Floor, Block A. Dr. Jha Marg, Okhla Phase-III, Okhla Industrial Estate, New Delhi 110020 NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

DEMAND

We The Religare Finvest Ltd. have issued Demand Notice w/s 13 (2) of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act. 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the security interest (enforcement) rules, 2002 through our authorized officer, the contents of the same are the defaults committed by you in the payment of installments of principal interest etc. the outstanding amount is as mention below: LOAN A/C. NO./ LOAN AGREEMENT DATE /LOAN AMOUNT

& ADDRESS

R/o D-88, Sector-26, Noida (U.P.)-201301 Mrs. Alka Aggarwal W/o Mr. Madhav Saran Aggarwal R/o D-88, Sector-26, Noida (U.P.)-201301

Mrs. Garima Agarwal Alias Garima Gupta W/o Late Mr. Vikas Gupta (Being Borrower and Legal Heir Of Late Mr. Vikas Gupta) A-123. Sector-27, Noida (U.P.)-201301 Also At: Mrs. Garima Agarwal Alias Garima Gupta W/o Late Mr. Vikas Gupta A-37A, Sector-40, Noida (U.P.)-201301 3(a) Ms. Ambika Gupta (Minor) Through Her Natura Guardian Mrs. Garima Agarwal Alias Garima Gupta 3(b) Master Aryan Gupta (Minor) Through His Natural Guardian Mrs. Garima Agarwal Alias Garima Gupta Both R/o A-123, Sector-27, Noida (U.P.)-201301.

R/o E-112, Everest Jalvayu Tower, Sector 56, Gurugram (Haryana)-122003

Loan Account No. XMORPNG00010097 (Application Id-518272) Loan Agreement Date 09.07.2010 Loan Amount Rs.54,00,000/-Loan Account No. XMORPNG00043554 (Application Id-588366) Loan Agreement Date 09.07.2012 Loan Amount Rs.83,00,000/-Loan Account No. XMORPNG00045029 (Application Id-590770) Loan Agreement Date 08.10.2012 Loan Amount Rs.78,00,000/-Loan Account No. XMORPNG00048336 (Application Id-599612)

Loan Agreement Date 11.06.2013 Loan Amount Rs.3,00,00,000/

Loan Account No. XMORPNG00050703 (Application Id-606076)

DEMAND AMOUNT AS PER SEC. 13 (2). NOTICE

Loan Agreement Date 20:12:2013 Loan Amount Rs.81,00,000/-Date of 13(2) Notice 19.10.2023

NPA Date - 31.10.2017 Demand Amount as per Sec. 13 (2) Notice as per Schedule-II as on 18-10-2023 along with interest & charges accruing to

loan account after 18-10-2023 SCHEDULE II

XMORPNG TOTAL DUES NAME OF THE BORROWERS 00010097 00043554 00045029 00048336 00050703 (RS.) Mr. Madhav Saran Agarwal (Addressee No.1) Mrs. Alka Agarwall (Addressee 1,30.55,281.08 | 1,81,30,161,42 | 1,18,83,014.84 7,00,60,446.94 1,91,87,423.79 No.2) Mrs. Garima Agarwal alias Garima 13,23,16,328.07 Gupta (Addressee No.3 and being legal heir of Late Vikas Gupta) Ms. Ambika Gupta (Addressee No. 3 (A) being legal heir of Late Vikas Gupta) 1,30,55,281,08 | 1,81,30,161,42 | 1,18,83,014,84 N.A. 1.91.87.423.79 6,22,55,881.13 Master Aryan Gupta (Addressee No. 3 (B) being legal heir of Late Vikas Gupta) Mr. Sharad Agarwal (Addressee No.4 1,91,87,423.79 being Guarantor in Loan A/c No.

XMORPNG00045029 AND XMORPNG00050703) All that piece and parcel of residential property bearing Plot No.123, area admesuring 300 Sq. Mtrs., situated at Block-A of Sector-27, Noida, District Gautam Budh Nagar (U.P.) having total covered Area 394. 58 Sq. Mtrs. Bounded as under: North By: Plot No. A-124, Sector-27 South By: Plot No. A-122A, Sector-27 East By: Plot No. A-120, Sector-27 West By: 18.0 Mtrs. Wide Road Owned By Mr. M.S. Agarwal, Mrs. Alka Agarwal, Mrs. Garima Gupta&late Mr. Vikas Gupta Property No. 2 (Security Interest In Loan Account No. XMORPNG00048336) All That Piece And Parcel Of Residential Lease Hold Plot bearing No. 88, Block-D. Situated At Sector-26, Noida, District Gautam Budh Nagar (u.g.) Total Plot Area Admeasuring 275 Sq. Mtrs. along with Semi Built Up Structure Standing Thereon Having Total Covered Area 492.98 Sq. Mtrs. Bounded as under: North By : 18.0 Mtrs. Wide Road South By : Plot No. D-146/D-147, Sector-26, Noida East By : Plot No. D-87, Sector-26, Noida West By : Plot No. D-89,

possession of this secured assets of the borrower/s. Further you are prohibited U/S 13 (13) of the said Act from transferring either by way of sale/lease or in any other way the aforesaid secured assets. Please note that no further demand notice will be issued.

New Delhi

under all or any of the provision of Sec. 13 (4) of the said Act against all or anyone or more of the secured assets including taking

For Religare Finvest Ltd.

Sector-26, Noida Owned By Mr. M.s. Agarwal & Mrs. Alka Agarwal Further with reasons, we believe that you are evading the service of Demand Notice. Hence this publication of demand notice, you are

Sd/- The Authorized Officer,

Liquidator: Mr. Rajiv Bajaj

Last date for submission of Requisite Forms/Proposal, 01.12.2023

consultation with the stakeholder's consultation committee. The Liquidator reserves the right to reject all or any offers received, at any stage without assigning any reason thereof.

AFA Valid upto 14.12.2023

PUBLIC ANNOUNCEMENT

MSX MALL PRIVATE LIMITED **PARTICULARS** DETAILS NAME OF CORPORATE DEBTOR MSX MALL PRIVATE LIMITED

Liquidation commencement date 10/11/2023 (Order Received on 14/11/2023) of Corporate Debtor

Unit No. 112, First Floor, Tower-A, Spazedge Commercial correspondence with the liquidator Complex, Sector-47, Sohna Road, Gurgaon-122018 Process Email Id: rp.msxmall@gmail.com

Relevant Forms and Details shall be available at

on or before 14/12/2023, to the liquidator at the address mentioned against item No. 10.

Liquidator, In the Matter of M/s MSX Mall Private Limited Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P01437/2018-2019/12240 | AFA Valid upto:14.02.2024

RELIGARE FINVEST LIMITED

NAME OF THE BORROWER/ CO-BORROWERS/ AVAILED/DATE OF 13(2) NOTICE /NPA DATE /

Mr. Madhav Saran Agarwal S/o Mr. Ram Avtar Agarwal

Also At: Both R/o A-37A, Sector-40, Noida (U.P.)-201301 (Both Being Legal Heirs Of Late Mr. Vikas Gupta) Mr. Sharad Agarwal S/o Mr. Prabodh Kumar Agarwal

XMORPNG00050703)

LOAN ACCOUNT NO. XMORPNG XMORPNG **XMORPNG** XMORPNG

1,91,87,423.79 N.A. N.A. N.A. (DETAILS OF SECURITY/ MORTGAGED PROPERTY) Property Description Property No.1 (Security Interest In Loan Account No. XMORPNG00010097, XMORPNG00043554.

hereby called upon to pay Religare Finvest Ltd within a period of 60 days of date of publication of this demand notice the aforesaid amount along with further interest, cost, incidental expenses, charges etc. failing which Religare Finvest Ltd will take necessary action

Place : Delhi Date: 15.11.2023

financialexp.epap.in

of time available, to redeem the secured assets

Type of Possession | Reserve Price Earnest Money Description of Cocured Accet

https://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf

HERO HOUSING FINANCE LIMITED HeroHousing Branch Office: - 27, Community Centre, Basant Lok.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) or their legal heirs/ representatives that the below described immovable properties mortgaged/charged to the

	Legal Heir/Legal Rep		Physical)		
HHFNSPHOU 19000005075	Mr. Ghanshyam Chaturvedi, Mrs. Suman	19/09/2022 Rs. 21,29,645/- as on 09/11/2023	Physical Possession	Rs. 11,00,000/-	Rs. 1,10,0
Side, Build on P	Property:- All that piece roperty bearing No-51-A	, Land Area Measurin	g 41.8 Sq. Mtr. i	i.e. 50 Sq. Ya	ards, Ou

Erected On Plot Of Land Total Admeasuring 500 Sq. Yds Bearing Khasra No 1053- 1054 (0-10) Chaitanya Apartment situated in The Extended Lal Dora Abadi Of Village Kapashera. Tehsil Vasan Whar, New Delhi -110037 along with Undivided, indivisible and impartible ownership rights in the land beneath the same, and with all right of possession, privileges, easements and appurtenances, with all fittings, fixtures, connections, structure standing thereon, with all rights in common entrances passages, staircase and other common facilities and amenities provided therein. Bounded By:

The E- Auction will take place through portal https://sarfaesi.auctiontiger.net on 06-Dec.-2023 (E-Auction Date) between 2.00 PM to 3.00 PM with limited extension of 10 minutes each

15 DAYS SALE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR/MORTGAGOR

For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may

contact the Service Provider, M/s e-Procurement Technologies Limited (Auctiontiger), Email

https://uat.herohomefinance.in/hero housing/other-notice on Hero Housing Finance Limited (Secured Creditor's) website i.e www.herohousingfinance.com FOR HERO HOUSING FINANCE LIMITED **AUTHORISED OFFICER**

ETT

ETT LIMITED CIN: L22122DL1993PLC123728

Regd. Off: 17, Hemkunt Colony, New Delhi - 110 048

T & F: +91 11 4656 7575 | E: secretarial@ettgroup.in | W: www.ettgroup.in EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEARLY ENDED SEPTEMBER 30TH, 2023 (₹ In Lakhs except earnings per share) Half Year Ended Year Ended Quarter Ended

Sec.	L Qu		richaea	mair rear	rear Ended	
SI Io.	Particulars	30.09.2023	30.09.2022 (Un-audited) 59.47 49.25	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	9 WCC-560454-0060304 1	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
	Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before tax,	68.57	59.47	131.53	130.00	280.29
	exceptional and/or extraordinary items)	61.74	49.25	119.33	18.75	159.45
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	61.74	49.25	119.33	848.28	995.30
8	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	48.00	36.96	90.58	734.35	850.25
	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and	10.00	00.00	00.00	101.00	000.20
	Other Comprehensive Income (after tax)]	48.00	36.96	90.58	734.35	848.49
	Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	1,036.87	1,036.87	1,036.87	1,036.87	1,036.87
	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)	Ta-Cookinson	CO 1000000000000000000000000000000000000		-	
100	a) Basic	0.46	0.36	0.87	7.08	8.20

filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website at www.ettgroup.in. for ETT Limited **Gurupreet Sangla** Jt. Managing Director Date: 14.11.2023

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter and Half Year Ended on September 30th, 2023

0.46

0.36

0.87

7.08

8.20

DIN: 00036988

HHFGAZHOU21000014267 Ganga Dutt Sharma, 19/07/2023, Rs. 11,20,942/-Geeta Sharma as on date 18/07/2023 (Symbolic Liquidator's Office: B 7/18 Mianwali Nagar, Rohtak Road

HHFNSPHOU22000019547 AMAN GUPTA, 22/08/2023, Rs. 16,57,053/-14/11/2023

Flat/Vacant Plot No. A-86, Sou	th: 30 ft wide road, West:	Vacant Plot No. A-88	
HHFNOIHOU22000024140 & HHFNOIIPL22000024141	RAVI PRKASH, RANI DEVI	22/08/2023, Rs. 9,99,579/- as on date 22/08/2023	14/11/2023 (Symbolic)
Description of Secured As: RHS with roof right having con- bedroom, one drawing/dining No-261, Rail Vihar Sehkari Sa Uttar Pradesh- 201102. Boun	vered area measuring 29 room, one toilet/bathroo amiti Ltd, Village-Sadulla	9 sq. ft. i. e. 27.77 sq. mtrs con: m, built on Plot No.c-20, Block ibad, Pargana And Tehsil- Loni	sisting of one - C, Khasra , Ghaziabad,

As Rishi Nagar, Shakur Basti, Delhi-11oo34, With Common Passage And Common Staircase Of The Above Said Property, with the proportionate free hold rights of the land under the said property, fitted with separate and water connections in working order, which is bounded as unde-North: Other's Property, East: Other's Property, South: Other's Property, West: Gali HHFDELHOU SANJAY KUMAR, RENU WIFE OF 28/08/2023, Rs. 7,87,180/-15/11/2023

escription of Secured Assets/Immovable Properties: ENtire Freehold Built Up Property Bearing Municipal No. 839/52a (old No. 839/54), Old Plot No. 1320-b/839/t-1349, Built On Land Area Measuring 29.26 Sq. Mtrs. I.e 35 Sq. Yds, Khasra No. 222, Village- Chowkri Mubarakabad, Lekhu Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035. Bounded by: North: Other's property, East: Other's property, South: Gali, West: Remaining portion of said plot HHFNSPHOU22000027409 | Ashish Kumar, Pallvee | 22/08/2023, Rs. 24,95,926/- 15/11/2023 & HHFNSPIPL22000027413 | Daughter Of Raj Kumar as on date 22/08/2023

stilt floor. Bounded As: North: Service Lane 6.5 ft wide, East: RHS Unit then Other property, South: HHFNSPHOU22000025894 RAHUL SHARMA. 25/08/2023, Rs. 14.33,895/- 15/11/2023 USHA SHARMA as on date 22/08/2023

b) Diluted

Place: Delhi

"प्रपन्न सं. आईएनसी—26" (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार / प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में

रंधावा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U45200DL2010PTC205115) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : बी–28, पृष्पीजलि फार्मस, बिजवासने नई दिल्ली-110061 में रिथत है ्याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार (प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "इरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 10 अक्तूबर, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन में संशोधन की

कंपनी के रजिस्टीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनवे हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सूप्दें कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पर्त पर भी भेजेगा। बी-28, पुषांजलि फार्नस, बिजवासन नई दिल्ली-110061

कृते की ओर से रंधावा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड इस्ता. /-तिथि : 16.11.2023 शॉन रंधावा स्थानः नई दिल्ली डीआईएन : 01667101 पता : ई-21, पृष्पांजलि फार्मस, विजवासन, नई दिल्ली-110061

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में साधारण सूचना क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013

की उप धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में रोज वुड एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, CIN No.

U74899DL1994PTC061592, अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए-11, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय मे आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 मे जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते, रोजवुड एग्रो प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 15.11.2023 स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में साधारण सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की उप धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में

रोजलाइन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड, CIN No. U74899DL1994PTC061590, अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः **ए-11, कैलाश कॉलोनी, नई**

दिल्ली-110048 में है, के मामले में एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 27 सितम्बर, 2023

को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित

परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

तिथि: 15.11.2023 स्थानः नई दिल्ली

हीरो हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड

दूरभाष : 011-49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ईमेल : customer.care@herohfl.com वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन नं. : U65192DL<u>2016PLC30148</u> संपर्क पता : बिल्डिंग नं. 27, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

आधग्रहण सूचना (अचल सपात्त हतु) (प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में विर्त्त परिसम्पित्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तिय के प्रयोगान्तर्गत, निम्न अंकितानुसार एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को सूचना में अंकित

राषि का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभृगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता के विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमे उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निम्न संदर्भित एक रागि तथा निम्न अंकित तिथि से इस राशि पर आकलित ब्याज और दांडिक ब्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेत् हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धार 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारक(काँ) / विधिक उत्तराधिकारी(रियाँ) / विधिक प्रतिनिधि(याँ) के नाम	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना के अनुसार राशि	अधिग्रहण की तिथि (रचनागत/भौतिक)
HHFDELHOU 19000001242	गौरव आहूजा	21/08/2023, रु. 20,45,348/- दिनांक 18/08/2023 के अनुसार	, ,
प्रतिभूत परिसंपत्ति	तयों/अचल संपत्तियों का विवरण :	स्वामित्वधारक निर्मित संपत्ति सं. 306	, जो ब्लॉक—बी, गली नंब
3 में, छत के अ	धिकारों के साथ समग्र तृतीय तल,	, खसरा नंबर 20 में से, ग्राम — भरो	ला के क्षेत्र, कॉलोनी जिर
मजलिस पार्क, वि	देल्ली — 110033 के नाम ^{ें} से जाना	। जाता है, में स्थित है जिसका क्षेत्रफ	ल 50 वर्ग गज अर्थात् 41

805 वर्ग मीटर है, तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : संपत्ति सं. 354, पूर्व : उक्त संपत्ति का शेष आधा भाग

दक्षिण : सड़क, पश्चिम : संपत्ति संख्या बी-305

दिनांक 18/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) भाग, जो गली नं. 5, क्षेत्रफल 33.444 वर्ग मीटर (40 वर्ग गज) कुल 100 वर्ग गज में से, खसरा नं. 758/99 प 759 / 99 में से, ग्राम—नसीरपुर की राजस्व संपदा, डी—2 ब्लॉक, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली—110045 में स्थित तह

अवस्तंभ तल पर एक बाइक पार्किंग के साथ स्थित है तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : अन्य की संपत्ति, पूर 18 फुट चौडी सडक, दक्षिण : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : 8 फुट चौडी गली। **HHFDELHOU**

वर्ग गज अथवा कहें 41.8 वर्ग मीटर (आकार 15' ग 30'), जो स्वामित्वधारक संपत्ति नगर निगम सं. 1823 का भाग है, गली सं. 136 (1823 / 136), पुराने भूखंड सं. 84 का भाग, खसरा सं. 257 / 6 में से, ग्राम — चौकरी मुबारकाबाद दिल्ली राज्य के क्षेत्र, आबादी जिसे शांति नगर, त्रि नगर, दिल्ली–110035 के नाम से जाना जाता है, में स्थित तथा िनम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : अन्य की संपत्ति, पूर्व : सड़क, दक्षिण : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : संपति / भूखंड

HHFGAZHOU21000014267 छत अधिकारों के, एल.आई.जी., प्लॉट नं. ए—43, खसरा नं. 213 पर निर्मित, जिसका क्षेत्रफल 350 वर्ग फुट अर्थात 32. 515 वर्ग मीटर है जो रेल विहार, ग्राम-सदल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित तथा प्लॉट निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व : प्लॉट नं. ए–42, पश्चिम : फ्लैट नं. एफएफ–3, उत्तर : अन्य फ्लैट, दक्षिण : साधारण उपमार्ग / फ्लैट नं. एफएफ :

22/08/2023, v. 16,57,053/- 14/11/2023 HHFNSPHOU22000019547 दिनांक 21/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) HHFNSPIPL22000019548 प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : पलैट नं. यूजीएफ — 02, ऊपरी भू तल, सामने एलएचएस छत के प्लॉट नंबर ए-87, खसरा नंबर 353 पर निर्मित, क्षेत्रफल 440 वर्ग फुट अर्थात् 40.876 वर्ग मीटर, जो रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सदुल्लाबाद, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 में स्थित तथा दो शयनकक्षों, एक ड्राइंग रूम, एक रसोई और दो शौचालयों स्नानागारों से युक्त है तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : पीछे की इकाई/अन्य की संपत्ति, पूर्व : आरएचएफ फ्लैट/खाली प्लॉट नं. ए—86, दक्षिण : 30 फुट चौड़ी

HHFNOIHOU22000024140 & दिनांक 22/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) HHFNOIIPL22000024141 सामने का आरएचएस, जिसका आवृत्त क्षेत्रफल 299 वर्ग फुट अर्थात् 27.77 वर्ग मीटर, जो एक शयनकक्ष, | ड्राइंग / डाइनिंग रूम, एक टॉयलेट / बाथरूम से युक्त, प्लॉट नंबर सी—20, ब्लॉक—सी, खसरा नंबर—261, रेल विहार सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम—सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201102 में निर्मित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : प्लॉट नं. सी–21, पूर्व : सड़क 30 फुट, दक्षिण : फ्रंट एलएचएस, पश्चिम

दिनांक 21/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : द्वितीय तल, पीछे की ओर / पूर्वी भाग, बिना छत अधिकारों के प्लॉट नं. बी—62, खसरा सं. 1310, पर निर्मित, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, हयात एन्क्लेव, ग्राम लोनी, परगना ए

तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 में स्थित है तथा प्लॉट नंबर बी–62 निम्नानुसार परिसीमित उत्तर : अन्य की संपत्ति, पूर्व : खाली प्लॉट, दक्षिण : 30 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम : खाली प्लॉट। 22/08/2023, v. 10,98,264/- 14/11/2023 विनोद कुमार, नेहा कश्यप, दिनांक 21/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) , पीछे की तरफ, जिसमें एक ड्राइंग / डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, एक शौचालय और एक रसोईघर है, जिसका आवृत

क्षेत्रफल 308 वर्ग फुट अर्थात् 28.61 वर्ग मीटर है, जो प्लॉट नं.- एफ-101, खसरा नंबर 180 $\, /$ 3, एवं 181, ब्लॉक-एफ एसएलएफ वेद विहार, ग्राम – सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : अन्य की संपत्ति, पूर्व : प्लॉट नं. एफ–102, दक्षिण : फ्रंट यूनिट एफएफ - 2 / 9 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम : यूनिट नं. एफएफ—4 / प्लॉट नं. एफ—100 रेणु बाला, जीतेंद्र गुलाटी,

दिनांक 22/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) प्रतिमत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : निर्मित संपत्ति डब्ल्यूजेड-601 के छत के अधिकारों के साथ संपृ निर्मित तुतीय तल, क्षेत्रफल 37.5 वर्ग गज, जो खसरा नंबर 359 एवं 360 में से, ग्राम सलीमपुर माजरा, मादीपुर औ दिल्ली राज्य के क्षेत्र दिल्ली अब कॉलोनी जिसे ऋषि नगर, शकूर बस्ती, दिल्ली–110034 के नाम से जाना जाता 🛮 में स्थित तथा उपरोक्त संपत्ति के सामान्य उपमार्ग एवं सामान्य सीढ़ी के साथ, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि व आनुपातिक खामित्वधारक अधिकारों के साथ, कार्यशील क्रम में पृथक एवं जल कनेक्शनों के साथ फिटेड, जो निम्नानुसार परिसीमित है— उत्तर : अन्य की संपत्ति, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : गली।

HHFDELHOU दिनांक 22/08/2023 के अनुसार

प्रतिभूत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण : छत/छज्जे के अधिकारों के साथ निर्मित तृतीय तल (पीछे आरएचएस से अथवा दक्षिण-पश्चिम दिशा से तृतीय) प्राइ. नं. 308, क्षेत्र माप 40 वर्ग गज उपरोक्त संपत्ति के हिस्स का क्रमांक 3, 4 एवं 5, जो ब्लॉक—बी, खसरा नं. 17/13 में से, प्रवेश/द्वार, सीढ़ी, उपमार्ग, लिफ्ट और अन्य सर्भ सामान्य सुविधाओं का उपयोग करने के सामान्य अधिकारों के साथ, भू तल पर एक दो—पहिया व्हीलर पार्किंग स्थ के साथ, जो ग्राम-मिटयाला के क्षेत्र और कॉलोनी जिसे नन्हे पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के नाम से जान जाता है, में स्थित है, जिसमें उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक स्वामित्वधारक अधिकार सम्मिलित हैं, तथ जो निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : उक्त संपत्ति का उपमार्ग/भाग, पूर्व : प्राइवेट तल नं. 306, दक्षिण : अन्य र्क

योगेश पुत्र अटल कुमार शर्मा, दिनांक 18/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : संपूर्ण स्वामित्वधारक निर्मित संपत्ति जिसका नगर निगम | 839 / 52ए (पुराना नंबर 839 / 54) है जो पुराने प्लॉट नं. 1320—बी / 839 / टी—1349 पर, 29.26 वर्ग मीटर अर्थाव 35 वर्ग गज माप के भूमि क्षेत्र पर निर्मित, खसरा नं. 222, ग्राम—चौकरी मुबारकाबाद, लेखू नगर, त्रि नग दिल्ली—110035 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : अन्य की संपत्ति, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण

HHFNSPHOU22000027409 आशीष कुमार, पल्लवी पुत्री 22/08/2023, रु. 24,95,926/- 15/11/202 दिनांक 22/08/2023 के अनुसार (सांकेतिक) राज कुमार **प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण :** प्राइवेट नं. 104, बिना छत के अधिकारों का प्रथम तल, प्लॉट नं 129 एवं 130 वाली निर्मित संपत्ति के पीछे की ओर एलएचएस, अधिमापन 50 वर्ग गज अर्थात 41.81 वर्ग मीटर, ज खसरा नंबर 21 / 18 / 1 में से, ग्राम-राजापुर खुर्द, ब्लॉक-एस, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 मे स्थित तथा अवस्तंभ तल पर एक सामान्य छोटी हैचबैंक कार पार्किंग स्थल के साथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्त सर्विस लेन 6.5 फुट चौड़ी, पूर्व : आरएचएस इकाई उसके बाद अन्य संपत्ति, दक्षिण : सामने की ओर की यूनिट

उसके बाद सड़क 20 फुट, पश्चिम : प्लॉट नं. 127 एवं 128 ऊषा शर्मा प्रतिभत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : निर्मित संपत्ति सं. 2. क्षेत्रफल 33.3 वर्ग गज

(अर्थात 27.86 वर्ग मीटर जी+1) खसरा नंबर 9/23 और 9/24 में से, राजस्व संपदा ग्राम हस्तसा दिल्ली राज्य दिल्ली में, कॉलोनी जिसे विकास नगर के नाम से जाना जाता है, गली नं. 12, ब्लॉक–एस उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर : मलका र्क

संपत्ति, पूर्व : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : शुबरन की संपत्ति, पश्चिम : गली 15 फूट। दिनांक : 16—11—2023 हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी स्थान : दिल्ली / राराक्षे कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ETT LIMITED

CIN: L22122DL1993PLC123728

Regd. Off: 17, Hemkunt Colony, New Delhi - 110 048

T & F: +91 11 4656 7575 | E: secretarial@ettgroup.in | W: www.ettgroup.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEARLY ENDED SEPTEMBER 30TH, 2023

3227		Quarte	r Ended	Half Year	Year Ended	
SI No.	Particulars	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
INO.		(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1	Total income from operations	68.57	59.47	131.53	130.00	280.29
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax,		0.00000	0000000000	00.001/09/04/17/10	27 00000 50 0000000
	exceptional and/or extraordinary items)	61.74	49.25	119.33	18.75	159.45
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax					
	(after exceptional and/or extraordinary items)	61.74	49.25	119.33	848.28	995.30
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax					
	(after exceptional and/or extraordinary items)	48.00	36,96	90.58	734.35	850.25
5	Total Comprehensive Income for the period					
	[comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and			1711177711700	is to the second second second	
	Other Comprehensive Income (after tax)]	48.00	36.96	90.58	734.35	848.49
6	Equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	1,036.87	1,036.87	1,036.87	1,036.87	1,036.87
7	Other equity as shown in the Audited Balance Sheet	(min)	100	200	201	1,00
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)		2000/00/00	5009000	9000000	Version
	a) Basic	0.46	0,36	0.87	7.08	8.20
	b) Diluted	0.46	0.36	0.87	7.08	8.20

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter and Half Year Ended on September 30th, 2023. filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website at www.ettgroup.in. for ETT Limited

Gurupreet Sangla Jt. Managing Director

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में साधारण सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की उप धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन नियमावली, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले मे

एस्टरफिल्ड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड, CIN No. U74899DL1994PTC062978, कम्पर्न अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए-11, कैलाश कॉलोनी, नई

दिल्ली-110048 में है, के मामले में

का प्रस्ताव करती है।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 मं जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते, एस्टरिफल्ड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 15.11.2023 स्थानः नई दिल्ली निदेशक

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में साधारण सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की उप धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में

बिजवासन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड, CIN No. U74899DL1994PTC061589, अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः $\mathbf{v}-11$, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में है, के मामले में

आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 मं जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते, बिजवासन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड

वेलक्यार ड्रग्स एंड फामस्यूटिकल्स लि. CIN No.: L24232DL1996PLC227773 पंजी. कार्याः: 107/22, गली नं. 3, ईस्ट आजाद नगर, शाहदरा, नई दिल्ली-110051 कॉर्पोरेट कार्यालय: 33/36 बेस्मेन्ट (बैक साइड), वेस्ट पटेल नगर, गमजस ग्राउण्ड के निकट, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110008

ईमेल आईडी: welcuredrugs227@gmail.com, वेबसाइट: www.welcuredrugs.com. फोन: 91-11-23552627, फैक्स नं. 91-11-23524610 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित

स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

सं.		(30.9.2023)	के आँकड़े (30.9.2023)	(30.09.2022) समाप्त तत्स्थान 3 मह	
	(नीचे टिप्पणी देखें)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित	
1.	परिचालनों से कुल आय	0.24	0.24	0.9	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-9.50	-12.83	-0.6	
	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-9.50	-12.83	-0.6	
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	-9.50	-12.83	-0.0	
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	-9.50	-12.83	-0.6	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1343.91	1343.91	1343.9	
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-		
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूलः ख) तरलः	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)		

एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय तथा अन्य किसी संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव क

फटनोट द्वारा उदघाटित किया जायेगा।

जहां कहीं भी लागू हो, इंड एएस नियमावली/एएस नियमावली के अनुसार असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मद लाभ तथा हानि व विवरण में समायोजित किये गये हैं।

हस्ता.

नामः विशाल मेहरा तिथि: 14.11.2023 पदनामः प्रबंध निदेशक DIN: 09717741

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिज. कार्यालयः टावर ए, 11वीं मंजिल, पेनिनसूला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर.

ब्लॉक ई-1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

चल सपात्त का 1बक्रा के 1लए 1बक्रा सूचना (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(1) के तहत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता संख्या— टीसीएफसीई0310000010295890,: कोरोनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एतद्दवारा आ नीचे वर्णित चल संपत्तियां (प्रतिभूति संपत्तियां) टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सिक्यो क्रेडिटर/टीसीएफएसएल) के पास गिरवी रखी गई हैं, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) (2002 की संख्या 54) की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार, जिसका कब्जा टीसीएफएसएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, निम्नलिखित चल संपत्तियों को 04 दिसम्बर, 2023 के दिन "जहाँ है जैसा है आधार" और "जैसा है और जो कुछ भी है और बिना संसाधन आधार " के आधार पर बेचा जाएगा।

जबकि प्रतिभति संपत्ति की बिक्री सरक्षित ऋण की वसली के लिए की जानी है और जबकि उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता / गारंटरों 1. कोरोनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक श्री रणजीत सिंह अटवाल के माध्यम से जिनका निवास: ई-0, मीरा कॉर्पोरेट सुइट, 1 और 2 ईश्वरनगर श्रीनिवासपूरी नई दिल्ली—110065, 2. मेसर्स जीएस अटवाल एंड कंपनी {आसनसोल} (सह—उधारकर्ता), अपने साझेदार रंजीत सिंह अटवाल के माध्यम से,निवासी:ई-0, थेमिरा कॉर्पोरेट सुइट,1 और 2 ईश्वरनगर श्रीनिवास पुरी श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली–110065, 3. श्री रणजीत सिंह अटवाल (निदेशक) पुत्र स्व.सुरिंदर सिंह अटवाल, निवासी: मकान अटवाल, निवासी: मकान नंबर-ए-18 नीति बाग नई दिल्ली-1100495, श्री करणवीर सिंह अटवाल (निदेशक) **पत्र स्व. सरिंदर सिंघटवाल निवासी :श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली—110065** से धारा 13(2) के तहत नोटिस दिनांव 31 जनवरी 2022 के माध्यम से राशि 23.01.2022 के अनुसार **रु.1,92,13,488 / —(एक करोड़ बानबे लाख तेरह** हजार चार सौ अहासी रुपये मात्र) ऋण खाता टीसीएफसीई0310000010295890 के माध्यम से बकाया थी। एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि, बिक्री के किसी भी स्थगन/बंद के अभाव में, उक्त प्रतिभूति संपत्ति के टीसीएफएसएल जिसका अपना शाखा कार्यालय 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055 में है, द्वारा 04 दिसम्बर, 2023 को दोपहर 2 बजे ई—नीलामी द्वारा बेचा जाएग ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के साथ संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद ई–नीलामी, टाटा कैंपिटल फाइनेंशिय सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 01 दिसम्बर, 2023 को शाम 5 बजे तक प्राप्त किया जाएग

प्रतिभूति संपत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)
संपत्ति श्रेणीः उत्खननकर्ता	भौतिक	₹.54,67,500/-	
निर्माताः टाटा हिताची कंस्ट्रक्शन मशीनरी कॉम		(रुपए चौवन	(पांच लाख
पैनी प्राइवेट लिमिटेड—सीईक्यू		लाख सङ्सट	छियालीस
संपत्ति मॉडलः जैक्सिस ६५० एच		हजार पांच	हजार सात सौ
इंजन नंबरः 0ACG 000268		सौ मात्र)	पचास रूपये
चेसिस नंबरः 0ACG 000268		<u> </u>	मात्र)

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्तियों का विवरण अनुसूची में है। बिक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि उपरोक्त देर राशि, ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी' को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि र लिए सबूत दिया जाता है कि ऐसे सुरक्षित ऋण की राशि, ब्याज और लागत भुगतान किया गया। बिक्री पर, आ तौर पर जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकार या अन्य व्यक्ति, जिसका इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य है, हालांकि, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बेची गई संपत्तिय तहत निर्धारित नियमोंध्यतों के अधीन होगी। ई-नीलामी पोर्टल नीलामी एजेंसी ऑक्टोमेट https://auctomate.cor नीलामी आईडी-समुदायः ईटी-सीई->राजस्थान->टाटा कैपिटल लिमिटेड, महिंद्रा -ईडिआईजी www.ediig.com नीलामी आईडी-समुदाय : ईटी-सीई->राजस्थान->TataCapitalLtd के माध्यम **04 दिसम्बर, 2023** को दोपहर 2.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साध लिमिटेड'' के पक्ष में दिल्ली में देय, डिमांड डाफ्ट के रूप में बयाना राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, होर्न चाहिए। संपत्ति का निरीक्षण 04 दिसम्बर, 2023 को सुबह 11 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है **टिप्पणी :** इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्री दीपक कौशिक, ईमेल आईर्ड Deepak.Kaushik@tatacapital.com और मोबाइल सं -+919780037197 से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री की विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूति लेनदार की वेबसाइट,

.pdf में दिए गए लिंक को देखें या अधिकृत अधिकारी या सेवा प्रदाता— मैसर्स 4क्लोजर से संपर्क करें। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ए एफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड पंजी. कार्यालय : 15/18, बेसमेंट बी पोर्शन, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008

कार्पो. कार्यालय : प्लॉट नंबर ८, सेक्टर—५, मेन मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा—121006 ई—मेल आईडी : afenterprises@gmail.com, वेबसाइट : www.afenterprisesItd.in, सीआईएन—एल18100डीएल1983पीएलसी016354 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु समीकेत और पृथक्कृत वित्तीय परिणामी का सक्षिप्त विवरण

[संबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के निबन्धनों में|

समेकित तिमाही तिमाही समाप्त समाप्त 30-09-2022 31-03-2023 30-09-2022 31-03-2023 30-09-2023 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) 137.65 161.47 2,956.17 137.65 161.47 2,971.47 अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधार 9.53 109.35 8.79 49.08 63,54 -43.10😗 अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर पूर्व (अपवाद तथा / अथवा 87.65 9.53 109.35 179.83 63.54 असाधारण मदों के पश्चात) अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथव 35,05 28.07 284.43 103.20 27.32 36.18 5 अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (क 35.13 28.07 284,43 104.29 27.32 36,18 पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है] 👔 प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10 / – प्रत्येक) 1,291.36 1,291.36 1,411,36 1,411.36 🕝 संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोडकर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित 553.42 1,901.52 588.62 558.62 📳 प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/— प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)

वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट्स पर तथा सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट 2) उपरोक्त परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा इनकी 14—11—2023 को आयोजित बैठक में किया गया है तथा सीमित पुनरीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किया गया है, जैसाकि ऊपर निदर्शित है।

नोट्स : 1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तृत किए गए तिमाही

2.20

2.20

0.78

0.57

ए एफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड संतोष कुमार कुशवाहा प्रबंध निदेशक

डीआईएन-: 02994228

पहचान के लिए अपील



(रु. लाखों में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नामः अज्ञात, पुत्रः अज्ञात, पताः अज्ञात जोकि दिनांक 12.11. 2023 को 10:32 बजे हैदरपुर जल उपचार संयंत्र, रोहिणी, दिल्ली में मृत पाया गया है। इस सन्दर्भ में DD No. 36 A dated 12.11.2023 पुलिस थाना केएनके मार्ग, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज

है। फोटो साफ नहीं है। मृत शरीर को 72 घंटे के लिए बीएसए अस्पताल के मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया। नीचे अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान दी गई है: नामः अज्ञात, उम्रः करीब 40–45 वर्ष, कदः 5'7'', रंगः सङ्ग हुआ

शव, चोटः दाहिना हाथ कोहनी आगे से गायब है, बायां हाथ कोहनी के आगे लटका हुआ, पहनावाः नग्न शरीर। अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया

नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।

पुलिस थाना, केएनके मार्ग, दिल्ली फोनः 011-27571171, 8750870327 DP/13097/RD/2023

> (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत) (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

	KIXX मीडिया प्राइवेट	लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
	प्राप्त	गिक विवरण
1.0	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	KIXX मीडिया प्राइवे ट लि मिटेड
2.	कॉपॉरेट के निगमन की तिथि	09.04.2012
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कार्परिट देनदार निगमित/ पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (आरओसी—दिल्ली)
4.	कॉपोरेट पहचान संख्या / कॉपोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	U74140DL2012PTC234115
5.	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	प्लॉट नं. 41ए, तीसरी मंजिल, ख. नं. 159 गांव राजपुर खुर्द एक्सटेंश दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली—110074
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	आदेश की तारीखः 09/11/2023 (आदेश प्राप्ति की तिथिः 14/11/2023)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	06.05.2024
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	नामः सुनील कुमार, पंजी सं: आईवाबाबाई/आईपीए-002/आईपी-एन00628/2018-19/11884
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई—मेल	रजि. पताः डी–740, टाइप–III, मदिर मार्ग, ईओडब्ल्यू कार्यालय के सामने, नई दिल्ली–110001 रजि. ईमेल आईडी: sunilcs9@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई—मेल	पताः डी—740, टाइप— III, मंदिर मार्ग, ईओडब्ल्यू कार्यालय के सामने, नई दिल्ली—110001, ईमेल आईडी: cirp.kixxmedia@gmail.com
11.	्दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28.11.2023
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	वर्तमान में कोई नहीं
13.	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए बिह्नित किया गया है। (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	वर्तमान में कोई नहीं
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) वर्तमान में कोई नहीं

दवारा सचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल न 09/11/2023 (आदश प्राप्त का ाताथः 14/11/20 को KIXX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। KIXX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्ववारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिग समाधान पेशेवर को 28.11.2023 को या उससे पहले सबत के साथ अपने दावे प्रस्तत करने के लिए कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय ऋणदाता, फॉर्म सीए में व वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के सामने सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अधिकृत

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

16/11/2023, दिर्ल्स

आभेरुचि को आमव्यक्ति के लिए आमत्रण हतु पुष्पा बिल्डस लिमिटेड ६, डी.बी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055 में गतिविधियों में परिचालनरत। (भारतीय ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (कॉपोरेट व्यक्तियों के लिए ऋणशोध

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियमन 36ए (1) के तहत पैन/सीआईएन/एलएलपी नंबर के साध कॉर्पोरेट देनदार का नाम पैनः AAGCP0642L सीआईएनः 45200DL1984PLC018772 पंजीकृत कार्यालय का पता 6, डी.बी. गुप्ता रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली कॉर्पोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है दिल्ली और उत्तर प्रदेश उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां में स्थित हैं मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित क्षमता लागू नहीं

पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों / सेवाओं की मात्रा और मूल्य दिवाला प्रारंभ होने की तिथि यानी 20 / 09 / 2022 के बाद कर्मचारियों / कर्मचारियों की संख्या से कॉर्पोरेट देनदार में कोई कर्मचारी/कर्मचारी नहीं है। कॉर्पोरेट देनदार का उक्त विवरण यहां अनुरोध करके प्राप्त कर (शेड्यूल के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक https://drive.google.com/fileId/14P8mkRSAKLr तिथियों सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध Wa6V8Ykrw5FjQFnsVqA_P/view?usp=sharing cirp.pushpa@gmail.com संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान कॉर्पोरेट देनदार का उक्त विवरण यहां अनुरोध करके प्राप्त कर आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है https://drive.google.com/fileld/14P8mkRSAKLr Wa6V8Ykrw5FjQFnsVqA_P/view?usp=sharing cirp.pushpa@gmail.com अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम 04/12/2023 14 / 12 / 2023 अनन्तिम सूची पर आपत्ति प्रस्तुत करने की 19 / 12 / 2023

ईओआई जमा करने के हेतु ईमेल आईडी cirp.pushpa@gmail.com 1. प्राप्त सभी ईओआई की समीक्षा आरपी के साथ–साथ सीओसी द्वारा की जाएगी और उसके बाद प्रक्रिया से संबंधित आगे / जानकारी दस्तावेज शॉर्टलिस्ट किए गए पार्टीओ को प्रदान किए जाएंगे 2. जिन संभावित समाधान आवेदकों ने फॉर्म जी दिनांक 13 दिसंबर, 2022 के अनुसरण में अपना ईडीआई जमा किया था, और जिनके नाम आरपी द्वारा प्रकाशित दिनांक 22 जनवरी, 2023 को संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची में दिखाई दे रहे हैं, उन पर विचार किया जाएगा। रुचि की अभिव्यक्ति के लिए इस निमंत्रण के तहत संभावित समाधान आवेदकों को कोई नई

संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, 03/01/2024

समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि 05/02/2024

ईओआई जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांकः 16.11.2023

स्थानः नई दिल्ली पृष्पा बिल्डर्स लिमिटेड रजि. के लिए रेजोल्यूश रजि. नंबर: IBBI/IPA-001/1P-P01818/2019-20/12784 1 AFA 26-03-2024 तक वैध पताः B-11, तीसरी मंजिल, गीतांजिल एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 मो. 9871692592 ईमेल आईडी : circ.pushpa@gmail.com I sanjay.mehra64@gmail.com

धामपुर स्पेशलिटी शुगर्स लिमिटेड सीआईएन- L24112UP1992PLC014478 ग्राम पल्लावाला, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर (उ.प्र.)-246761



30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के वितीय परिणाम का सारांश

mww.dhampurgreen.com

क्र.	,		स्टैण्ड	एलोन	11		समे	कित		स्टैण्डएलोन	समेकित
सं.	विवरण	समाप्त तिमाही समाप		समाप्त	छमाही	प्रमाही समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखा	परीक्षित
		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	31.03.2022
1	प्रचालनों से कुल आय	583.78	265.83	886.85	512.73	759.52	492.16	1218.12	965.38	1324.79	2157.06
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	153.68	-38.25	154.73	-36.43	154.96	-26.14	158.46	-12.42	8.02	270.42
3	कर पूर्व अविध हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात#)	153.68	-38.25	154.73	-36.43	154.96	-26.14	158.46	-15.99	7.61	270.01
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात#)	113.72	-38.25	114.50	-36.90	115.24	-26.14	117.90	-15.99	10.32	206.14
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	113.72	-38.25	114.50	-36.90	115.24	-26.14	117.90	-15.99	10.32	206.14
6	इक्विटी शेयर पूंजी	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793.12	793,12	793.12
7	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित है										
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)-	2235	10.00	0.551	845	1736	332	1722	550	76000	19723
	1. बेसिक : 2. डाइल्यूटेड	1.43	-0.48	1.44	-0.46	1.45	-0.33	1.48	-0.20	0.13	2.60
	2. 513(4)25	1.43	-0.48	1.44	-0.46	1.45	-0.33	1.48	-0.20	0.13	2.60

(1) उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 14.11.2023 को आयोजित बैठक में अनमोदित किया गया।

(2) कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय परिणाम पर एक सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। (3) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय परिणाम के विवरण प्रारूप का एक उद्धरण है, लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय का फॉइर

प्रारूप परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dhampurgreen.com पर उपलब्ध हैं।

कते धामपर स्पेशलिटी शगर्स लिमिटे

DIN: 00036988

तिथि : 14-11-2023

स्थान : फरीदाबाद

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 15.11.2023

www.readwhere.com

Date: 14.11.2023 Place: Delhi